

Health for all

66

Contents


		PAGE NO
1.	EC-HARIDWAR HIGHLIGHTS - JUNE 2022	04
2.	DATA SNAPSHOT OF EC-HARIDWAR - JUNE 2022	05
3.	GH-SATPULI HIGHLIGHTS - JUNE 2022	06
4.	DATA SNAPSHOT OF GH-SATPULI	07
5.	VISUAL OUTCOMES OF CATARACT PATIENTS	08
6.	THE "WHY" AND "HOW" OF PROCEDURE -RETINOSCOPE	09
7.	हर घर स्वास्थ्य की दस्तक	10
8.	नेत्र चिकित्सा महोत्सव - १८ जुलाई से २४ जुलाई २०२२	11
9.	LIFE @ EC	13
10.	ICU (INTENSIVE CARE UNIT) AT THFGH	15
10.	" सेवा भी सम्मान भी " & "सेवा भी मनोरंजन भी"	16
11.	CAMPAIGNS OF JULY 2022	17
12.	KNOW YOUR COLLEAGUE	18
13.	KNOW A DEPARTMENT - PATIENT CARE SERVICES GH & EC	19
14.	PREPARING FOR NABH FAQ	20
15.	EMPLOYEE CORNER - POETRY/ PAINTING	21
16.	DO YOU KNOW ?	22
17.	WELCOME NEW JOINEES	23
10	CELEBRATIONS	0.4

EC-HARIDWAR Highlights


- We did **464 surgeries** this month.
- 91% PHACO surgeries this month and 9% SICS.
 Painless surgery has considerably impacted the patient experience.
- OPD numbers this month: 7,728
- New Patients % this month: 48%
- Stay time of surgery patients in the Hospital : **04 hrs 12** minutes.
- Stay time of appointment patients in the Hospital : **28 minutes.**
- 82% Day care surgeries.
 Patient walked in for OPD Consultation and also got eye surgery on the same day.
- Pharmacy dispensing this month: 4,753
- Pharmacy conversion % this month: 58%
- Optical dispensed this month: 1,092
- Optical conversion % this month: 64%



Data Snapshot of EC-Haridwar









GH-SATPULI Highlights

• Total OPD: 13,122

Opthalmology: 965
Geriatric Medicine: 135
Internal Medicine: 117
General Surgery: 62
Orthopedics: 80

Obstetrics & Gynaecology: 59

Paediatrics: 31

• Total Surgeries : **855**

Ophthalmology Surgeries: 766

General Surgeries : 44 Obs. Gynaecology : 30

Orthopedics: 15

• New Patient % this month: 56%

• Outreach clinics this month: 64 (Opthal & Geriatrics)

• Total no. Deliveries: 15

• Dialysis: 106

• Radiology: 4,579

Ultrasound: 631

CT : 242

X-Ray

Total no. ICU Patients: 131

• Emergency Footfalls: 254

: 3,706


Outreach Clinic OPD's : 4,818 (Opthal & Geriatrics)





Data Snapshot of GH-Satpuli














Visual Outcomes of Cataract Patients



Assessing surgery outcomes is an important aspect of Quality of Care to the patient. As a part of our ethos this also gives us an overview of our Clinical expertise.

1,130 Cataract Surgeries together in GH and EC showed following results:

EC- Haridwar Cataract outcomes-June-2022				
Good vision with WHO	392	94%		
Poor vision	0	0%		
GVP with poor vision	24	6%		
Lost to follow up (Not came for follow up)	3	1%		
Child	0	0%		
Total	419	100%		
Perfect vision	149	36%		

GH Cataract outcomes-June-2022				
Good vision	477	67.08%		
Poor vision	3	0.42%		
GVP with poor vision	47	6.61%		
Lost to follow up (Not came for follow up)	68	9.56%		
Total	711	100%		
Perfect vision	116	16.31%		

The "Why" and "How" of procedure - OBJECTIVE REFRACTION (RETINOSCOPE)

OBJECTIVE REFRACTION (RETINOSCOPE)

Refraction is a clinical technique used to obtain an Objective measure of the refractive status of the eye. Objective refraction is a performed using an instrument called retinoscope.



Method of Assessment:

The retinoscope projects a beam of light into the patient's eye through the pupil. Through the peephole in the retinoscope, the observer sees the retinal light reflex coming from the patient's pupil. By observing the behavior of the reflex, the observer can objectively determine the refractive error of the patient's eye.

Article Written by -Mr. Rohit Kumar (Optometrist)



हर घर स्वास्थ्य की दस्तक



नेत्र चिकित्सा महोत्सव

18 जुलाई से 24 जुलाई 2022

गढ़वाल क्षेत्र को अन्धकारमुक्त बनाने के मिशन की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए हंस फाउंडेशन जनरल अस्पताल सतपुली ने **18 जुलाई** से **24 जुलाई** तक **७ दिवसीय नेत्र चिकित्सा महोत्सव** का आयोजन किया। इस कैंप का उद्देश्य आस पास के क्षेत्रों से उन सभी जरूरतमंद और वंचित रोगियों को अस्पताल परिसर में बुलाकार उन्हें सम्पूर्ण नेत्र देखभाल सुविधाएं प्रदान करना था जो किन कारणों से पहले अस्पताल नहीं आ पाए थे और घर के नजदीक होने पर भी यहां मिलने वाली सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाए थे।



इस आयोजन को सफल बनाने के लिए 5-6 दिन पहले से ही आस पास के क्षेत्रों में कैंप का प्रचार शरू कर दिया गया था ताकि सभी जरूरतमंद मरीजों को सुविधा का लाभ मिल सके। ऑपरेशन टीम की तरफ से मनीष बिष्ट और दीपिका भंडारी ने इस कैंप को लीड किया और पूर्ण योजना तैयार की। कैंप के सफल आयोजन के लिए **EC हरिद्वार और** GH-EC दोनों टीमों ने हाथ मिलाया और एक सर्वश्रेष्ठ टीम बनाई। क्योंकि मरीजों की अपेक्षित संख्या अधिक थी, इसलिए EC हरिद्वार से भी कुशल स्टाफ़ की टीम सतपुली बुलायी गई ताकि अस्पताल आने वाले मरीजों को कम समय में अच्छा उपचार मिल पाए। EC हरिद्वार से 23 लोगो की विशेषज टीम सतपुली पहुची जिसमे **नेत्र रोग** ँ (डॉक्टॅर), ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टिशियन, नर्सिंग स्टाफ, ०७ तकनीशियन, ड्राइवर सभी शामिल थे। सही योजना, कुशल टीम और अच्छी तैयारी के कारण पेशेंट्स वेटिंग टाइम बहुत कम था तथा कही भी पेशेंट्स को जयादा समय इंतिज़ार नहीं करना पड रहा था। जिन लोगों को सर्जेरी की आवश्यकता थी उनके लिए अलग से काउंसलिंग सेक्शन बनाया गया था। जिन पेशेंट्स को आवश्यकता थी उनको **नि:शुल्क चश्मे व दवाइयां** दी गयी। इसके साथ ही पेशेंट्स के लिए पुरे समय पानी, चाय और बिस्कुट की व्यवस्था कराई गई। नेत्र विभाग की नियुक्त टीमों के अलावा, अस्पताल के सभी कर्मचारी रोगी सेवा में योगदान देने और उन्हें सर्वश्रेष्ठ रोगी अनुभव देने के लिए दृढ थे।

पूरी टीम के समर्पण और योगदान के साथ, हम पेशेंट्स को निम्न परिणाम दे सके -

Total OPD =1333
Total Surgeries with procedures advised =187
Same day Surgeries = 41
Total Optical Dispensing = 850

सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच कड़ी मेहनत करने के बाद बेहतर टीम एक्सपीरियंस के लिए टीमों के लिए आउट डोर एक्टिविटी की व्यवस्था की गई। जिसमे सब ने आस पास के रमणीक स्थानों में भर्मण के साथ साथ मैग्गी कम्पटीशन, संगीत और डांस कार्यक्रम का आनंद लिया। व्यक्तिगत और टीमों के बेहतर विकास के लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर था।













Life @ EC

8 long years and what a roller coaster ride of becoming the best Eye Care facility in the state of Uttrakhand. Reliving our Vision "To become the most trusted health partner to the society at large through ethical, accountable and evidence based health care and service excellence".

What does our hardworking Team of Optoms, Doctors, Technicians, Nurses, Housekeeping and other Support Staff think to achieve and create an Excellent Quality of Patient Care and Patient Experience.

Few thoughts from our Employees:

EC is like a family where we all work together
to achieve a common Goal. Everyone
complements another and respect the hardwork
that each one contributes every single day.
I have worked in many other Hospitals but the
way we all are connected to each other and stay together in every
happy or sad phases of life cannot
be seen anywhere else. All these things make EC different from every
other organization and we are proud to be a part of EC –

Amit Kumar Mandal
"He works in Counselling and is always in Line of fire
with the patients"

The working conditions in EC are very enjoyable.

The most unique thing here is that we treat patients as the most important and patient service and patient experience are considered to be as of utmost importance –

Vipin Kumar

"He heads Supply Chain and is one of the important Support System of EC"

I feel myself very fortunate to be a part of EC as the level of sense of responsibility and patient service that I have seen here cannot be matched. And I got a chance to contribute to this noble cause makes me feel very happy and lucky –

Puneeta

She is a Senior Optometrist , who very patiently attends to all patients without any bias"



We at EC come across and face so many challenges and hurdles everyday to provide our patients the best of facilities and patient care but at last when our patients gives blessings to us and we see them smiling, all those hurdles seems to be worth it.

We have seen people accept these challenges and growing in their roles and achieving new heights of success here:

Surendra is a great example of the same. Surendra joined EC back in 2016 as a Driver and today is working efficiently as a Patient Care Coordinator in the OPD and is also providing trainings to the other newly recruits in Patient Care.

EC is not just a workplace, it's an attitude. A place that connects us all for achieving a collective GOAL while keeping right intentions and focused attitude.

Life @ EC

विनीत और शाहिद

विनीत और शाहिद THFEC के दो बहुत ही प्रतिभाशाली और मेहनती कर्मचारी हैं। वे EC 2 की सफलता के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक हैं। वे मरीजों के लिए संपर्क के पहले बिंदु और THFEC के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। वे EC 2 के प्रचार में सक्रिय रूप से शामिल हैं और वे सर्जरी करने के लिए परामर्श की पूरी प्रक्रिया के बारे में रोगियों का मार्गदर्शन भी करते हैं।



विनीत एक आउटसोर्स एजेंसी के पेरोल पर झड़बर के रूप में 2014 में एक बहुत ही प्रारंभिक चरण में THFEC में शामिल हुए। बाद में वह अपने अच्छे प्रदर्शन और मेहनती रवैये के परिणामस्वरूप THFEC के पेरोल में भीस्थानांतरित हुए और आज वह EC 2 में आउटरीच एक्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहे हैं और योग्य रोगियों तक पहुंचने और उन्हें THFEC में सर्जरी के लिए लाने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने हर उस भूमिका में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है जो उन्हें किसी भी समय सौंपी गई है। वह बिना किसी व्यवहार संबंधी समस्या के साथ हमेशा एक असाधारण रूप से अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति रहा है। हमें उन्हें THFEC के एक हिस्से के रूप में पाकर गर्व है और हम उन्हें भविष्य में प्राप्त होने वाले हर नए अवसर के लिए श्भकामनाएं देते हैं।



शाहिद भी 2015 में THFEC में एक आउटसोर्स एजेंसी के पेरोल पर माली के रूप में शामिल हुए थे। उनकी कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप उन्हें THFEC के पेरोल में भी स्थानांतरित कर दिया गया। आज, शाहिद EC 2 में एक आउटरीच एक्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहे हैं और आवश्यक उपचार के लिए योग्य रोगियों को THFEC में लाने का ध्यान रखते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से अपनी सारी सफलता हासिल की है और जो चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है वह यह है कि वह हमेशा चीजों को सकारात्मक रूप से लेते हैं और उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बाहर लाते हैं। शाहिद भविष्य में और अधिक सफलता के हकदार हैं और हम उन्हें भविष्य के कार्यों के लिए शुभकामनाएं देते हैं।



विनीत और शाहिद दोनों इसका एक आदर्श उदाहरण हैं - कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। वे कई अन्य कर्मचारियों के लिए रोल मॉडल हैं जो संगठन में विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि दुसरे लोग भी उनसे प्रेरणा लें, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर आएं, अपनी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश करें और उन्हें संगठन में नई सफल भूमिकाओं में विकसित करें। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर हमारे पास सकारात्मक दृष्टिकोण, एकाग्र मन और सही इरादे हैं तो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको और कामयाबी मिले!

ICU (Intensive Care Unit) at THFGH

किसी भी अस्पताल में **ICU** उन रोगियों की देखभाल के लिए बनाया जाता हैं जिन्हें वेंटिलेटर, ब्लड प्रेशर सपोर्ट, अत्याधुनिक उपचार और डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा करीबी निगरानी की आवश्यकता है। आईसीयू में भर्ती कई मरीज जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे होते हैं।

ऐसे युग में जहां क्रिटिकल केयर सुविधाएं और बुनियादी ढांचा टीयर १ शहरों तक सीमित है और वह भी बहुत ऊंची दरों पर, हंस फाउंडेशन जनरल हॉस्पिटल सतपुली उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के दूरदराज के इलाकों में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को गहन देखभाल सुविधा प्रदान कर रहा है।

THFGH की **ICU** की प्रशिक्षित और कुशल टीम अत्यधिक प्रेरित है और रोगियों की गहन देखभाल के लिए दिन-रात लगातार और समर्पित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है, इस विश्वास के साथ कि ये रोगी अपनी गंभीर बीमारी से लड़ेंगे और स्वस्थ होकर खुशी से अपने घर वापस जाएंगे।

डॉ. अंकित बोधके (सलाहकार- एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर) जो ICU टीम का नेतृत्व कर रहे हैं , के अनुसार, "मैंने द हंस फाउंडेशन जनरल हॉस्पिटल, सतपुली, उत्तराखंड में एनेस्थिसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर विभाग में एक सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया। मानवता की सेवा करने और इन गंभीर रोगियों को विशेष रूप से ऐसे दूरदराज के इलाके में गहन देखभाल सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम होना एक सौभाग्य की बात है जहां कठिन इलाके मरीजों के लिए समय पर अस्पताल पहुंचने को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं।"

संदीप सिंह (नर्सिंग स्टाफ)

इन रोगियों को अपनी गंभीर बीमारी से ठीक होते हुए देखना, पूरे THFH परिवार को अपार खुशी और संतुष्टि देता है। रोगी देखभाल के एक साझा मिशन की दिशा में टीम कडी मेहनत कर रही है।



जीवन और आशा की कहानी

गंभीर रूप से बीमार रोगियों के बारे में कुछ जानकारी जो बहुत गंभीर स्थिति में आईसीयू में भर्ती थे -



- श्री भरत सिंह जिन्हें 2D इको पर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और 10% के इजेक्शन फ्रैक्शन के साथ भर्ती कराया गया था। उन्हें इंटुबैट किया गया और 4-5 दिनों के लिए मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया और अंत में आईसीयू में रहने के 15 दिनों के बाद स्थिर स्वास्थ्य के साथ अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
- श्रीमती सिवी देवी बुजुर्ग महिला जो सीओपीडी की तीव्र वृद्धि के कारण सांस की तकलीफ के साथ हमारे पास आई थीं। शुरू में उसे आंतरायिक एनआईवी समर्थन के साथ प्रबंधित किया गया था, लेकिन फिर अंततः उसे इंटुबैट करना पड़ा और 5-6 दिनों के यांत्रिक वेंटिलेशन के बाद उसे आईसीयू में 16 दिनों तक रहने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
- गजेंद्र सिंह THFGH में डायलिसिस से गुजरने वाले पहले इंटुबैषेण रोगी थे।

सेवा अस्माकम धर्म:



🏂 सेवा भी सम्मान भी 🛷







🏂 सेवा भी मनोरंजन भी 🛷





Campaigns of July 2022







HEARTFELT
THANKS
Happy
Doctor's
Day





Know Your Colleague



आपका पूरा नामः साहिल सक्सैना

जन्म तिथि: 18 अगस्त पसंदीदा अभिनेता: गोविंदा

फिलोसोफी: सादा जीवन उच्च विचार पसंदीदा फिल्में: बॉर्डर , स्वर्ग इत्यादि

पसंदीदा रंग: नीला

पसंदीदा पुस्तक: दी बिग बैंग थ्योरी (स्टीफेंस हाकिंग

लेखक)

पसंदीदा खानाः मम्मी के हाथ का मीठा लाल कददू

पसंदीदा यात्रा स्थानः कैलाश मानसरोवर

THFH में होने के लिए आपको क्या प्रेरित करता है? सेवा परमो धर्मः

कृपया हमें अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं ? हमारे परिवार में, पूज्य मम्मी जी के सानिध्य में मेरा बड़ा भाई भाभी ओर में रहता हूँ।

आपकी प्रेरणा और आदर्श कौन है ?

मेरे माता पिता मेरे प्रेरणा स्रोत है एवं श्री सदाशिव महादेव व महामाई मेरे आदर्श है, यह ही मेरे परम् गुरु भी हैं। जिनके स्नेहपूर्ण आशीर्वाद, संस्कार एवं सुविचारों से में सदैव प्रेरित रहता हूँ।

आप अपने खाली समय में सबसे ज्यादा क्या करना पसंद करते हैं ?


एकांत रहकर आत्ममंथन।

सहकर्मियों के लिए कोई संदेश? कर्म करो फल की इच्छा नहीं।



Know a Department Patient Care Services GH&EC

A patient and their attendants are the user of health care services whether he or she is healthy or sick. Patient care not only refers to the prevention, treatment, and management of illness and but also the preservation of physical and mental well-being through services offered by health professionals by the way they are handled by the care givers.



Our patient care department consists of all care givers who respect each patient's dignity and autonomy, right to participate in making health care decisions, right to informed consent, right to refuse medical treatment, and right to confidentiality and privacy. The attention, treatment, and care that each care provider gives to a patient respects the patient demographic profile and condition.



Our Team of Patient Care Services deal with every single patient day in and day out, solving their queries, guiding them on the process, collect feedbacks and persuade them to complete their follow up processes. The enthusiasm and their never ending spirits makes this Department the Backbone of the Hospital experience.

Preparing For NABH FAQ

1. What is NABH stands for?

National Accreditation Board for Hospitals and Health Care Providers.

2. What is NABH?

National Accreditation Board for Hospitals Healthcare Providers (NABH) is a constituent board of Quality Council of India (QCI), set up to establish and operate accreditation programme for healthcare organizations. The board while being supported by all stakeholders including industry, consumers, government, have full functional autonomy in its operation.

3. What is Accreditation?

A public recognition of the achievement of accreditation standards by a healthcare organization, demonstrated through an independent external peer assessment of that organization's level of performance in relation to the standards.

4. What is vision of Hospital?

To become the most trusted health partner to the society at large through ethical, accountable and evidence based health care and service excellence

5. Define Quality?

- Doing it right think the first time every time.
- Having the best achievable outcome for each patient.

6. What is value of Hospital?

We, as an organization, are committed to providing solutions that improve patient outcomes and experience. As one common team, with one collaborative vision, we are committed to these care values and behaviors.

7. What is Mission Statement of the hospital?

The Hans Foundation Hospitals is dedicated to providing equitable access to best in class health care while focusing on exemplary patient experience.

8. Who are vulnerable patients?

Vulnerable patients are those patients who, for any reason, are not able to protect or take care of himself/herself, against exploitation or harm. Such patients are prone to various risks within the hospital, such as fall, injury, neglect, abuse, medical errors and acquiring of infections.

Example

- Geriatric patients (60 years of age).
- Pediatric patients (12 years of age).
- Physically/ mentally challenged patients.
- Comatose patients.
- Unescorted female patients.
- Patients unable to perform ADL (Activities of Daily Living).

Employee Corner - Story Lessons

एक सरल तकनीक जो गलतियों को काफी हद तक कम करती है।

ग<mark>ह</mark>न देखभाल करने वाले रोगियों के लिए कैथेटर प्राप्त करना एक आम बात है - उपचार के दौरान तरल पदार्थ निकालने के लिए शरीर में डाली गई लचीली ट्यूब।

लेकिन यह प्रथा समस्याग्रस्त हो गई थी। २००६ में, मिशिगन में ८०,००० गहन देखभाल वाले मरीज़ जिन्हें कैथेटर मिला था, वे संक्रमित हो गए और २८,००० की मृत्यु हो गई।

इन संक्रमणों की आर्थिक लागत \$2.3 बिलियन डॉलर थी!

डॉ. पीटर प्रोनोवोस्ट, जॉन हॉपिकंस अस्पताल में एक क्रिटिकल-केयर डॉक्टर। उन्होंने कैथेटर लाइनों से संक्रमण को रोकने के लिए चिकित्सा कर्मचारियों के लिए एक सरल चेकलिस्ट विकसित की:

- साब्न से हाथ धोएं।
- रोगी की त्वचा को क्लोरहेक्सिडिन एंटीसेप्टिक से साफ करें।
- पूरे रोगी के ऊपर रोगाण्हीन पर्दे लगाएं।
- एक बाँझ मुखौटा, टोपी, गाउन और दस्ताने पहनें।
- कैथेटर साइट पर एक बाँझ ड्रेसिंग रखो।

प्रोनोवोस्ट ने गहन देखभाल इकाई में नर्सों से निगरानी करने के लिए कहा कि क्या डॉक्टर इस सूची का पालन करते हैं। एक महीने में, नर्सों ने बताया कि 33 प्रतिशत रोगियों का इलाज करते समय डॉक्टरों ने कम से कम एक कदम छोड़ दिया। इसके बाद, प्रोनोवोस्ट ने अस्पताल प्रबंधन को राजी किया कि यदि नर्सें सूची का पालन नहीं करती हैं तो वे डॉक्टरों को रोक दें, और हर दिन डॉक्टरों से पूछें कि क्या कैथेटर लाइनें अभी भी आवश्यक थीं।

परिणाम नाटकीय थे: लाइन संक्रमण ११ प्रतिशत से घटकर ० प्रतिशत हो गया। पंद्रह महीनों के भीतर, चेकलिस्ट और नर्सों की नई भूमिका ने ४३ संक्रमणों, ८ मौतों को रोका और \$२ मिलियन की बचत की।

टेकअवे: चेकलिस्ट वे लोगों को कार्रवाई करने, समय की बर्बादी से बचने और दक्षता बढ़ाने में मदद करते हैं, और लोगों को प्रेरित करते हैं क्योंकि वे प्रगति देख सकते हैं और उपलब्धि की भावना महसूस कर सकते हैं। आप अपने कार्य जीवन में चेकलिस्ट कहाँ तैनात कर सकते हैं?

Story Source: The Checklist Manifesto by Atul Gawande Contributed by : Ms. Neha Goel (EC)

Did You Know?

Everyone has a UNIQUE TONGUE print.
Just like fingerprints, our tongues have unique identifying marks.


WELCOME

New Joinees

NEW JOINEES




















Celebrations

Doctor's day Celebration





परम पूजनीय श्री भोले जी महाराज बर्थडेसेलिब्रेशन सेरेमनी

